

decayed structural members. This is going to cost up Rs. 2,99,200. The work is already commenced.

श्री. शिरधार लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, यह हिन्दुओं का सब से बड़ा तीर्थस्थान है और उस की तरफ जो तब्ज्जह दी जाती है, वह अभी आप के सामने प्रकट हो गया है कि अभी प्रोपोजल बन रहे हैं, अभी स्कीमें बन रही हैं। सन् 1964 से इन्होंने इस को अपने हाथ में लिया है। तो ये मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कितना पैसा अभी तक मन्दिर की रिपेयर्स पर खर्च हुआ है और जब से इस को हाथ में लिया है, तब से अब तक कितनी दरारों को ठीक किया है और इस सम्बन्ध में क्या एक्सटेंशन वर्क आप की तरफ से चल रहा है ?

SHRI P. K. THUNGON: After taking over, so far several repair works have been taken up. The repair work on the floors of *sabhamandapas* and *garbhagrihas* has already been taken up. Also, the southern porch has been repaired. Now, we are going to repair and, as I have already said, the repair work has already been started for the western and the northern porch.

As regards the other question as to how much we have spent so far, I would like to let the hon. Member know that so far we have spent Rs. 4,13,664.

हिमाचल प्रदेश में वन तथा उद्यान विश्वविद्यालय की स्थापना

*662. श्री. कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस दृष्टि से कि हिमाचल प्रदेश में वन एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, उस राज्य में एक वन तथा उद्यान विश्वविद्यालय कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ; और

(ख) इस बारे में राज्य सरकार द्वारा सोभे गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) No such proposal has been received from the Government of Himachal Pradesh

(b) Does not arise.

श्री. कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह प्रश्न कृषि मंत्री जी के लिये था लेकिन इनको यह ट्रान्सफर हो गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कृषि मंत्रालय को इस उद्यान विश्वविद्यालय के लिये हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है, क्या उस की आप जांच करायेंगी ?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, यह सवाल ऐसा है जोकि दूसरी मिनिस्ट्री का है और इन्होंने वहां यह भेजा है। तो मैं कैसे इसे कराऊगी, मुझे भेजेगे, तो मैं कराऊगी।

अध्यक्ष महोदय : सुल्तानपुरी जी, आप एक काम यह करिये, इसे आप भेजे या न भेजे लेकिन अपनी जैसी एक टोपी डिप्टी मिनिस्टर साहब को जरूर भेजिये।

श्री. कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : वह जरूर होगा लेकिन मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि आप का सम्बन्ध एजुकेशन से है और उद्यान विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मेरा सवाल था और मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से यह क्वेश्चन किया था—हिमाचल प्रदेश में फल और फोरेस्ट्री के अलावा और कोई खास चीज नहीं होती है। इसलिये हिमाचल प्रदेश विधान सभा में इस की चर्चा हुई है और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि सोलन जिले में एक होर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए। वहां पर उन्होंने जमीन ले ली है और वहां पर जो

एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस को उद्यान विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिये कहा गया है। इसलिये हमारे यहां पर फोरेस्ट्री और हार्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी बनाने का प्रबंध किया जाये। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आप के दायरे में आता है कि हिमाचल प्रदेश को सरकार अगर यह तजवोज आप के पास भेजे, तो आप उस पर विचार करेंगी।

श्रीमती शोला कौल : यह सब तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कन्सर्न है।

Primary Health Centres

*663. SHRIMATI VIDYA CHENNUPATI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what is the area covered in the country by the existing Primary Health Centres;

(b) whether these PHCs are adequate for the improvement of health of people in the rural areas and whether their working is satisfactory;

(c) whether there are any proposals to effect improvements in the working of PHCs and to expand them; and

(d) if so, details of the same?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI KUMUD-BEN M. JOSHI): (a) to (d). The existing Primary Health Centres or similar institutions cover the rural areas of the country. In order to increase the outreach of the existing Primary Health Centres and improve their effectiveness, the number of doctors, health supervisors and health workers and funds for purchase of medicines are being augmented. Community involvement is being secured and expanded and primary health care outreach is sought to be increased through

the training of a large number of Health Guides along with training of traditional dais. It is also proposed to have a Primary Health Centre for every 30,000 rural population in general and for every 20,000 population in hilly and tribal areas by the end of the century.

SHRIMATI VIDYA CHENNUPATI: The same answer was given by the Hon. Minister in 1981 December also. (Interruptions).

I would like to know from the Hon. Minister whether there is any proposal to send the Village Health Workers who undergo the training through the training programmes to the villagers in the rural areas who are living in the remote areas? Are you sending the Health workers to the remote villages or not?

The second point is: There is 20,000 population in the hilly areas and 30,000 population in the rural areas. The distance between village to village is 2 to 3 KMs. Is it possible for the PHC to send the Health Guides for 30 KMs distance to reach health care to the people who are living in the villages?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): Perhaps the Hon. Member is puzzled to see that the answer given in December last is the same as given today. Hardly three months have elapsed. The Hon. Member should know that the facts do not change so fast and so much. There cannot be any difference.

(Interruptions)

The Hon. Member has now asked about the problems of the village people and of the health facilities to the rural areas. That is the reason why we have undertaken to expand the facilities of the health care to the village people by establishing a few more primary health centres and sub-centres. The sub-centres that will now be established will be getting 100 per cent assistance from the Centre.